APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Corporate Office: C-1/9 First Floor, Sector – 31, Gautam Budh Nagar, Noida, 201301 CIN No. L74899DL1983PLC016713 Email: apoorvaleasing@gmail.com PH # 0120 - 4372849

15-02-2025

To
The Department of
Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers Dalal Street
Mumbai- 400001

Ref.: Script Code 539545

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Publication of unaudited Financial Results for the quarter ended December, 2024

Pursuant to Regulation of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations,2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publication of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on December, 2024 as published in the "The Jansatta" Hindi and "Financial Express" as English edition

Kindly take the above information in your records.

Thanking You,

Yours Faithfully, For Apoorva Leasing Finance & Investment Company Limited

Atul Singh Digitally signed by Atul Singh Tyagi Date: 2025.02.15
12:40:35 +05'30'

Atul Singh Tyagi Managing Director DIN-01335008

R R Financial Consultants Limited

CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-44441111 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2024

			Conso	lidated		
Particulars		Quarter ende	d	Nine Mor	Year ended	
	31.12.2024 (Unaudited)		31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2024 (Audited)
Total income from operations (net)	513.11	579.61	496.36	1,757.67	1,593.39	1987.18
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	11.75	48.64	14.27	96.77	135.12	65.82
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.75	48.64	(10.79)	96.77	110.06	65.82
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.21	37.54	(11.08)	75.13	102.27	43.19
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.14	41.14	(9.52)	68.93	93.53	37.05
Equity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year	12		0	1	62	3451,87
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	0.02 0.02	0.37 0.37	(0.09) (0.09)	0.62 0.62	0.84 0.84	0.33 0.33

Key Standalone Un-audited Financial information for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2024

		Standalone								
Particulars		Nine Mon	Year ended							
		30.09.2024 (Unaudited)		31.12.2024 Unaudited		31.03.2024 (Audited)				
Total income from operations (net)	23.67	17.91	30.59	86.20	80.25	105.03				
Profit before tax	15.43	10.74	10.73	20.39	11.04	5.58				
Profit after tax	12.89	10.05	10.44	17.16	10.45	1.54				

 The above is an extract of the detailed format of 3rd Quarter ended Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/ consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com.

- The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement principles of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS), as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amended Rules), 2016 prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies
- 3. The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting
- Previous period figures have been reclassified/ regrouped wherever considered necessary to conform to the current figures. For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Date: 14th February, 2025 Place: New Delhi

विवरण

क्र.

Rajat Prasad Managing Director DIN: 00062612

31.12.2023

(रु. लाख में)

31.03.2024

श्री गंग इंडस्ट्रीन एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लिभिटेड **सीआईएन** : एल11011युपी1989पीएलसी011004

पंजीकृत कार्यालय : भूखंड सं. बी-2/6 एवं 27, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया सांडिया फेज-IV, जनपद हरदोई- 241204 (उत्तर प्रदेश) वेबसाइट : www.shrigangindustries.com, ई-मेल आईडी : secretarial@shrigangindustries.com 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024

सं.		को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	को समाप्त नौ माह (अलेखापरीक्षित)	को समाप्त नौ माह (अलेखापरीक्षित)	को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय (निवल)	9966.85	7,430.92	29028.85	23508.90	28920.23
2	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर तथा आपवादिक मदों से पूर्व)	1117.10	220.01	3238.81	1572.47	1526.55
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	1117.10	220.01	3238.81	1572.47	1950.81
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	1035.76	239.82	3072.49	1365.47	1478.98
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)		239,82	3072.49	1365.47	1480.88
6	समता अंश पूंजी (रु. 10/— प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1793.00	1,793.00	1793.00	1793.00	1793.00
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्त्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार					(4788.42)
8	आय प्रति अंश (रु. 10/— प्रत्येक का अंकित मूल्य) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों हेतु)— मूलभूत एवं तरलीकृत					
	(तिमाही हेतु अवार्षिकीकृत)	5.78	1.34	17.14	7.62	8.25

- 1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मण्डल द्वारा 14 फरवरी 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया। इन वित्तीय परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारितानुसार कंपनी (भारतीय लेखाँकन मानक) नियमावली 2015 (संशोधितानुसार) (आईएनडी एएस) तथा व्यापक रूप में लागू अन्य मान्यताप्राप्त लेखाँकन पद्धतियों एवं नीतियों के अनुसार तैयार किया गया है। 2. कंपनी के पास दो व्यावसायिक खण्डवार हैं– एडिबल ऑयल परिचालन तथा लिकर परिचालन और खण्डवार परिणाम,
- परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियां तदनुसार दी गयी हैं। 3. वर्तमान तिमाही के साथ ही साथ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2023—24 की तिमाहियों में यहां कंपनी की वनस्पति / रिफाइंड
- ऑयल इकाई में कोई उत्पादन नहीं हुआ था। 4. परिचालनों से हुये राजस्व में रु. 2000.00 लाख तथा रु. 1047.36 लाख की राशियां सम्मिलित हैं जो क्रमशः 30.09.2024 एवं 31.12.2024 को समाप्त तिमाही की अवधि में राज्य शासन से प्राप्त की गई थीं, जो कि अपने लिकर खंडवार में विनिर्मित उत्पादों के संदर्भ में कंपनी द्वारा जमा की गई राज्य शासन की ड्यूटीज एवं लेवीज के रिफंड के प्रति है।

5. सूचीकरण विनियमावली 2015 के विनियम 47(2) की आवश्यकताओं के अनुसार, परिणाम बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

(यूआरएल www.bseindia.com/corporat मे) पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते श्री गंग इंडस्ट्रीज एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-स्थान : नई दिल्ली अरुण कुमार शर्मा दिनँक : 14/02/2025 पूर्णकालिक निदेशक

अपुरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड CIN: L74899DL1983PLC016713; दूरभाष: 0120-;4372849 ई—मेल: apporvaleasing@gmail.com; वेबसाइट: www.apoorvaleasingfinance.com पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक -34, हाऊस न० 247, त्रिलोकपुरी दिल्ली-110091

कारपोरेट कार्यालय:सी-1/9, सेक्टर-31, नौयडा, उत्तर प्रदेश-201301

31 दिसम्बर, 2024	का समाप्त ातमाहा	एव नामाहा क सग	ाठत एव एकाकृत	ावत्ताय पारणामा	का सार	राशि लाखों
विवरण		एकीकृत		-	संगठित	_
	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	331.12.2024 को वर्ष से तिथि	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2024 को वर्ष से तिथि	31.12.2023 को समाप्त तिमाही
	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित
परिचालन से कुल आय (नेट)	20.16	155.42	138.62	20.16	158.90	138.62
अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले#)	3.82	95.28	119.39	3.72	98.54	119.33
कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	3.82	95.28	119.39	3.72	98.54	119.33
कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	2.86	71.30	89.34	2.82	72.02	89.33
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(10.02)	47.60	75.54	(10.06)	46.24	75.76
चुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल [सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49
प्रति शेयर आय [सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर] (संचालन जारी एवं बं	द करने के लिए)-				
मूलः	0.01	0.36	0.45	0.01	0.36	0.45
	2.24	0.00	0.45	0.04	0.00	0.45

तिथि : फरवरी 14, 2025

स्थान : दिल्ली

उपरोक्त 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप का सार सेबी (सूचीबद्धता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंर्तगत स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किये गये। 31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के एकीकृत एवं संगठित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.in एवं कम्पनी की वेबसाइट www.apoorvaleasingfinance.com पर उपलब्ध है।

0.36

0.45

0.01

2 # - विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को आईएनडी-एएस नियमों/एएस नियमों, जो भी लागू हों, के अनुसार लाभ एवं हानि कथन में समायोजित किये गये

कृते अपुरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड अतुल सिंह त्यागी

0.01

प्रबन्ध निदेशक DIN: 01335008

0.36

रूद्राभिषेक एटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 820. अंतरिक्ष भवन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली— 110001 भारत सीआईएन: L74899DL1992PLC050142

वेबसाइट : www.repl.global, ईमेल : secretarial@replurbanplanners.com

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र.	विवरण			एक	<i>ृ</i> ल					समेकित				
सं.	1		समाप्त तिमाही	121	समाप्त	नौ माह	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त	नौ माह	समाप्त वर्ष	
1.314	/ <u></u>	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023) (अलेखापरीक्षित)	30.09.202 4) (अलेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.202 4 (लेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023) (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	
1	परिचालनों से कुल आय	2,758.59	2,365.91	1,819.81	6,383.43	5,889.69	9,198.74	3,190.74	2,452.39	2,024.31	7,128.33	6,283.91	10,058.24	
2	कर पूर्व निवल लाभ	664.20	540.41	508.38	1,619.70	1,449.16	1,770.90	707.49	561.66	519.75	1,689.04	1,514.80	1,895.71	
3	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ (असाधारण मदों	1	1 /	1 1		1	1 2 1	1 1	1	[
	के उपरांत)	492.72	417.52	386.95	1,131.29	1,093,32	1,311.62	522.98	433.93	393.75	1,180.32	1,140.97	1,405.35	
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ /					1	1							
	(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1 /		
	उपरांत) से समाविष्ट)	486.91	411.53	379.51	1,113.88	1,075.37	1,294.95	517.44	427.64	386.43	1,174.61	1,123.17	1,389.28	
5	समता भुगतानकृत अंश पूंजी	1,792.88	1,734.25	1,734.25	1,792.88	1,734.25	1,734.25	1,792.88	1,734.25	1,734.25	1,792.88	1,734.25	1,731.25	
6	आय प्रति अंश (अवार्षिकीकृत) :		1	1 - 1	1 1	1	1 1	1	1	1		1 /		
	मूलभूत (रु.)	2.83	2.41	2.23	6.49	6.30	7.56	3.00	2.50	2.27	6.77	6.58	8.10	
	तरलीकृत (रु.)	2.80	2.40	2.14	6.42	6.29	7.33	2.97	2.49	2.17	6.70	6.56	7.85	
			<u> </u>				$\overline{}$	4	_			$\overline{}$		

उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा तथा संस्तृति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी और निदेशक मंडल ने 14 फरवरी 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया है। दिनाँक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह की अवधि के वित्तीय परिणामों का कंपनी के साँविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है तथा उन्होंने उपरोक्त वित्तीय परिणामों पर असंशोधित समीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया है। उपरोक्त विवरण, सेबी (सचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2024 को समाप्त नौ माह की अवधि के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित त्रैमासिक परिणामों के विस्तुत प्रारूप का एक सारांश है। अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों अर्थात (www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.repl.global) पर उपलब्ध है।

हजार छ: सो चौरासी

मात्र) दिनांक 10 जून,

2024 初布

कृते रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड प्रदीप मिश्रा

रु. लाख में (आय प्रति अंश छोडकर)

डीआईएन : 01386739

दिनाँक : 14 फरवरी, 2025

उषा पत्नी राकेश पहाडिया, शभम

के नाते) (सह-ऋणी)

DMI HOUSING FINANCE

स्थान : नोएडा

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहाद्र शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोन: +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373

[नियम 8(1) देखें] कब्जे की सूचना अचल सम्पत्तियों हेत

जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हार्डमिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) सपठित [नियम 3] का प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (2002 का 54) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए निम्नलिखित दिनांक को एक माँग नोटिस जारी करके नीचे वर्णित ऋणयों /सह-ऋणियों को नोटिस में वर्णित राशि उक्त नोटिस के मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था। ऋणियाँ/सह-ऋणियाँ/बंधककर्ताओं/जमानतदारों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणियाँ/सह-ऋणियाँ/ बंधककर्ताओं/ जमानतदारों और जनसाधारण को यह सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की बारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा नीचे वर्णित दिनांक को प्राप्त कर लिया है। ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन साधारण को सामान्य रूप से इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई संव्यवहार न करें। निम्नलिखित संपत्तियों का कोई भी संव्यवहार डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के निम्न वर्णित रूपयों + अनुबंध की दर से आगे का ब्याज पूर्ण भगतान होने तक एवं खर्चों के अध्यधीन होगा।

麻.		अचल सम्पत्तियों का विवरण	माग सूचना दिनांक	बकाया राशि
1.	स्व. तारा चंद और राखी पत्नी राकेश कुमार रोहिल्ला (सह-ऋणी)	नई विल्ली 110041 में स्थित है। सीमाएं: उत्तर में: गली चौड़ी 15 फीट, वक्षिण में: खसरा नंबर 423/1 का हिस्सा (श्री सुनील कुमार और अन्य), पूर्व में: फ्लैट नंबर 5, पश्चिम में: खसरा नंबर 423/3/1 का हिस्सा	कब्ज का दिनांक 13.06.2024 11.02.2025	10 जून, 2024 तक
2.	ऋणी- सकेश पहाड़िया पुत्र	निर्मित आवासीय सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो ग्राउंड फ्लोर, बिना	13.06.2024	रू. 1556684/- (रूपये

ऋणियों/सह-ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) वे उपबंधों की ओर, आकुष्ट किया जाता है। हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक: 14.02.2025 स्थान: नई दिल्ली डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राइंबेट लिमिटेड

110059 में स्थित है। सीमाएं: उत्तर में: उसी प्रोजेक्ट की प्राइवेट यूनिट नंबर 2, दक्षिण

1, खसरा संख्या 568 और 569 में से, जो नवादा गांव की राजस्व संपदा में, आवादी 12.02.2025

JOHN OAKEY AND MOHAN LTD CIN:L15549DL1962PLC003726

में : प्रोजेक्ट नंबर 1. पूर्व में : पार्किंग स्थल, पश्चिम में : गली 10 फीट

पत्र संजय पहाडिया (गारंटर होने क्षेत्र जिसे कॉलोनी मोहन गार्डन एक्सटेंशन के नाम से जात, उत्तम नगर, नई दिल्ली

Regd Office: office no 4 First Floor Near Punjab National Bank Pocket E Market Mayur vihar phase 2 Delhi 110091 **E-Mail:** oakeymohan@gmail.com. **Website:** www.oakeymohan.in Tel.: 0120-2657298

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

						(F	Rs. in Lacs
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2024 Unaudited	Quarter ended 30.09.2024 Unaudited	Quarter ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2023 Unaudited	Year Ended 31.03.202 Audited
1	Total Income from Operations (Net)	327.19	337.72	341.11	1,033.70	996.49	1,344.50
2	Net Profit / (Loss) for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	(29.40)	5.41	(14.55)	(33.35)	(120.97)	(162.65)
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(29.40)	5.41	(14.55)	(33.35)	(120.97)	(181.87)
4 5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period	(29.48)	8.53	(14.55)	(30.31)	(120.97)	(182.28)
6 7	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserve excluding Revaluation Reserves as	(34.29) 48.38	13.73 48.38	(6.13) 48.38	(26.68) 48.38	(103.90) 48.38	(166.48 48.38
8	per balance sheet of previous year Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations) (of Rs.10 each (not Annualised)	-					1,541.69
a b	Basic (Rs) Diluted (Rs)	(6.09) (6.09)	1.76 1.76	(3.01) (3.01)	(6.26) (6.26)	(25.00) (25.00)	(37.67 (37.67

Place: New Delhi

Date: 14th February, 2025

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly And Nine Months ended December 31,2024 results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and on Company's website at www.oakeymohan.in
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respective meetings held on 14th February 2025

For And on behalf of the board For John Oakey and Mohan Ltd

Surendra Kumar Seth

Chief Financial Officer And Managing Directorr DIN 10631380

एवडीएफसी बैंक बनाम एस. जी. प्लारिटक्स व अन्य सेवा में, **(1) रामराज ग्रेवाल,** पुत्र श्री चंद पाल, प्रोपराइटर, एस. जी. प्लास्टिक, संगम एसॉसिएट्स, खसरा नंबर 14 / 18 और 14 / 17, ग्राउंढ फ्लोर, बैंक पोर्शन, मेन सफियाबाद रोड, शिव भंदिर कॉलोनी, नरेला, नई दिल्ली -११००४० इसके अलावा फ्लैट नंबर २३५. ईश्वर कॉलोनी, बवाना, उत्तर-पश्चिम दिल्ली – ११००३९ इसके अलावा धसरा नंबर 15/5/2, रवतंत्र नगर, भारत माता स्कृत के पास, नरेता, बवाना रोड, उत्तर-पश्चिम दिल्ली – 110040 (2) श्रीमती बबीता कृद्ध, पत्नी श्री रामराज ग्रेवाल, पुत्री धर्म सिंह, पलेट नंबर 235, ईश्वर कॉलोनी, बवाना, उत्तर-पश्चिम दिल्ली — 110039 <u>इसके अलावा</u> संगम एसोसिएट्स, खसरा नंबर 14 / 16 और 14 / 17, ग्राउंड फ्लोर, बैक पोर्शन, मेन सफियाबाद रोड, शिव मंदिर कॉलोनी, नरेला, नई दिल्ली – 110040 <u>इसके अलावा</u> खसरा नंबर 15/5/2, खतंत्र नगर, भारत माता स्कूल के पास, नरेला, बवाना रोड, उत्तर-पश्चिम दिल्ली - 110040

ऋण वस्ती अधिकरण-1, दिल्ली

बौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

उपरोक्त आवेदक द्वारा आपके विरुद्ध रु. 39,91,817.36/— (उनतालीस लाख इक्यानवे हजार आठ सौ सत्रह **रुपये और छत्तीस पैसे मात्र)** की वसूली हेतु वाद दायर किया गया है। अधिकरण की संतुष्टि अनुसार, आपको तामान्य विधि से नीटिस देना संभव नहीं है, अतः यह विज्ञापन द्वारा आपको सुचित किया जाता है कि 01.05.2025 को प्रातः 10:30 बजे आप माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। अधिक जानकारी के लिए डीआरटी वेबसाइट www.tribunal.gov.in या फोन नंबर 011-23748473 पर संपर्क करें। यदि आप निर्धारित तिथि को ਜਦੀਂ ਗੇਜੇ ਹੈ, ਜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਗ਼ ਆਪੂਰੀ ਅਜਧਰਿਆਰਿ ਸੇ ਸਦਾ ਘੀਟ ਜਿਹਾਂਸ਼ ਨਿਹਾਂ ਗਾਹਰਾ । सभी नामलों को वीडियो कॉन्क्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और इसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी: (क) समी वकील / मुकदमा करने वाले : "Cisco Webex" एप्लिकेशन / सॉफ्टवेयर खाउनलोड करेंगेय। (छ) जगले सुनवाई की तिथि के लिए "**मीटिंग आईडी"** और "**पासवर्ड"**, जो कि 'रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-| तीर रिकवरी ऑफिसर−II द्वारा लिए गए मामलों के लिए होगा, एक दिन पहले क्रीआरटी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होगा. अर्थात "https://drt.gov.in" पर सार्वजनिक सबना हेड के तहत । (ग) किसी भी आपात रिधति में वकील / मुकदमा करने वाले संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, फौन नंबर: 011-23748473। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के साथ 30 **दिसंबर 2024** को दिया गया। **उत्तरदाता किसी भी पूछताछ के** लिए निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं: माननीय रजिस्ट्रार, डीआरटी-1, नई दिल्ली फोन

नंबर: 011—23748473 ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in. ट्रिब्यूनल के आदेश से सहायक रजिस्ट्रार। अधिकरण के आदेशानुसार, सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-1, नई दिल्ली

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण ट्रांजलीज होल्डिंग्स द्धइंडियाऋ प्राइवेट लिमिटेड मुंबई. गुरुगाम और अन्य स्थानों पर कारों को पड़े पर देने का व्यवसाय में संघालित (दिवाता और तोषन असमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समावान प्रक्रिया)

	ਪ੍ਰਾसਰਿ	क विवरण				
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉपीरेट देनवार का नाम	प्र ंजलीज होल्डिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटे सीआईएन : U65910MH2006PTC162528 पैन : AABCE6340D				
2.	पंनीकृत कार्यालय का पता	कॉपॉरेंट देनदार का कार्यालयः मकान नंबर 695, तिरूपति एपीटी. पाटकर प्लीट, कलांबे शासपुर, कलमगांव, ठाणे, शासपुर, महाराष्ट्र, भारत - 421601				
3.	वेबसाइट का युआरएस	लागू नहीं				
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत रियत है	मुम्बई, दिल्ली एनसीआर				
5.	कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कारों का पड़ा				
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मृल्य	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस बीट के अनुसार, परिवालन से राजस्व 18-83 करोड़ रुपये हैं।				
7.	कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या	शुन्य				
8.	वो वर्षों के अतिम उपलब्ध वितीय विवरणों (अनुमुधियों के साथ), सेनवारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेनु प्रासीमक तिथियां सहित अधिक विवरण बडा उपलब्ध हैं:-	विस्तृत जानकारी के लिए समामान ऐशेवर को धपतच. cirp.tranzlease@gmail.com पर अनुरोध मेजा जा सकता है।				
9.	सींहेता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां बुआरएस पर उपलब्ध है:	विस्तृत जानकारी के लिए समाधान पेशेवर को बंपतब. cirp.tranzlease@gmail.com पर अनुरोध भेजा जा सकता है।				
10	स्रचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की ऑतम तिथि	15-02-2025 (मूल) 02-03-2025 (विस्तारित)				
11,	संभावित संकल्प आवेदकों की ऑतम सूची जारी करने की तिथि	25-02-2025 (मृत) 04-03-2025 (विमतारित)				
12,	अंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02-03-2025 (मृत) 09-03-2025 (विस्तारित)				
13.	संभावित समाधान आवेदकों की ऑतम सूची जारी करने की तारीख	12-03-2025 (मृत) 12-03-2025 (विस्तारित)				
14,	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना श्रापन, मूर्त्याकन मेट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख	17-03-2025 (मृत) 17-03-2025 (विस्तारित)				
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16-04-2025 (मूल) 16-04-2025 (विस्तारित)				
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी प्रक्रिया	cirp.tranzlease@gmail.com				

ग्राईपीई - एनपीवी इन्सॉस्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट सिमिटेड

इसके निदेशक - श्री अतल टंडन के माध्यम दिनांक 15 फरवरी, 2025 आक्रीबीआई पंत्रीकरण संख्याः IBBI/IPE-0040/IPA-2/2022-23/50021 स्थानः नई दिल्ली पत्राचार के लिए इमेल - cirp.tranzlease@gmail.com एएफए वैथताः 31.12.2025 तक

Capital Trust

CAPITAL TRUST LIMITED

(CIN-L65923DL1985PLC195299) Registered Office: 205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030

Phone: 9716844571 Email: info@capitaltrust.in Web: www.capitaltrust.in EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

Amount in Lakhs (except EPS) Nine Months Nine Months Corresponding Financial Qtr Ended Qtr ended ended ended Qtr Ended Year ended **Particulars** 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 2,519.82 2,511.14 1,980.97 7,505.78 5,711.16 7,958.32 Total Income from Operations Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional 30.84 288.12 and / or Extraordinary items) 21.41 73.49 150.75 206.82 Net Profit/(loss) for the period before Tax (after 288.12 Exceptional and / or Extraordinary items) 21.41 30.84 73.49 150.75 206.82 Net Profit/(loss) for the period after Tax and Minority Interest (after Exceptional and / or Extraordinary items) 23.26 55.27 102.50 154.69 214.62 Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other 154.69 216.15 5.88 23.26 55.27 102.50 Comprehensive income (after tax)] 1,621.75 Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per Equity Share) 1,686.58 1,686.58 1,686.58 1.621.75 1,621.75 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 6.048.24 Earning per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations) 0.03 0.14 0.34 0.61 0.95 1.32

New Delhi

14th February 2025

0.45

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th February, 2025. The Statutory Auditors have reviewed the above financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024. The Board, in its meeting held on November 14, 2024, approved the fundraising via a rights issue of up to ? 4995.00 Lakhs. Accordingly, the Company has applied for approval from the respective exchanges. Approval from NSE was obtained on February 06, 2025, while approval from BSE is yet to be received.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year to date Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the website of the Company at www.capitaltrust.in On behalf of the Board of Directors of



Capital Trust Limited Yogen Khosla

Chairman and Managing Director

1.32

📵 पूर्वोत्तर रेलवे एसीवोल्ट कर्षण को चालू करना 25000 'सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी'' जन साधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैन्ट-गोरखपुर जिं तीसरी लाईन खण्ड पर 25000 विद्युत कर्षण आरम्भ करने के लिए सभी समपारों पर सड़क सतह से अधिकतम 4.78 मीटर ऊँचाई की गेजे लगाई गई है, ताकि बहुत अधिक ऊँचाई वाली लोडेड सड़क वाहन को विद्युतमय कर्षण तार की खतरनाक सन्निकता या संपर्क में आने से रोका जा सके। जन साधारण को एत्द द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि सड़क वाहनों के लदान के प्रयोजन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट ऊँचाई का पालन करें और यह देखें कि सड़क वाहन में ढोये जा रहे लोड से किसी भी स्थिति में ऊँचाई गेजों का अतिक्रमण न करें। **अत्यधिक** ऊँचाई के लोड के खतरे निम्नानुसार है— 1. ऊँचाई गेज के लिए खतरा और उसके फलस्वरूप सड़क और रेलवे लाइन पर बाधा। 2. वाहन पर ले जाये जा रहे सामाग्रियों या उपकरण को खतरा । 3, चालकों की खतरनाक सन्निकटता या सम्पर्क के कारण आग लगने का खतरा और जीवन की हानि का खतरा। उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/निर्माण मुजाधि/विद्युत-243

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।


www.readwhere.com

Under Section 13(2) of The SARFAESI Act 2002 (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Ltd.),
Registered Office:- 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Sr. No.79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036. GRIHUM You the below mentioned Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors have availed Home loans/ Loans against property facility (ies) by mortgaging your immovable property/ies from Grihum Housing Finance Limited (formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited as the name Poonawalla Housing Finance Limited changed to Grihum Housing Finance Limited With effect from 17 Nov 2023 (Previously Known as Magma Housing Finance limited and originally incorporated with the name of GE Money Housing Finance Public Unlimited Company) hereinafter referred as Secured Creditor. You defaulted in repayment and therefore, your loan/s was classified as Non-Performing Assets. A Demand notice under section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of security Interest act 2002 for the recovery of the outstanding dues sent on last know addresses however the same have returned un-served. Hence the contents of which are being Published here with as per section 13(2) of the act read with Rule 3(1) of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of alternate service upon You. Details of the Borrowers, Co-Borrowers, Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent Under section 13(2) and amount claimed there under are give as under Name of the Borrower, Demand | Amount in Demand Notice **Description of Property** Co- Borrower, Guarantor Notice Date (Rs.) All That Piece And Parcel Of The One Residential House In Khasra No. & Loan Amount Rs.10,38,228/- (Rupees Ten 367mi, Land Area Measuring 282.23 Sq. Mts., Situated At Aabadi Village Gyanander Kumar, Suresh Lakh Thirty Eight Thousand Two Hundred Twenty Eight Suresh Shanjarpur Kaidwa, Pargana Barnawa, Tehsil Baraut & Distt. Baghpat. 06-02-2025 Only) together with further Loan Amount: Rs.10,00,000/-Boundaries: East: Binoli Ameenagar Saray Marg, West: House of interest @ 15.35% p.a till Loan No: Dharamveer, North: House of Devendra, South: House of Satendra. LAP0605200000005033968 repayment. All That Piece And Parcel Of The Flat No. Gf-02, Built On Residential Plot No. Saurabh Kumar, Rs.11,26,126/- (Rupees A-91, Area Measuring 96 Sq. Yards I.E., 80.26 Sq. Meters Out Of Khasra No. **Anita Kumari Eleven Lakh Twenty Six** 1307 Min, Situated At Residential Colony Hayat Enclave In The Village Loni, Pargana &, Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh. (Hereinafter Called 06-02-2025) Loan Amount: **Thousand One Hundred** Rs.1030000/-TwentySix Only) together The Said Property). Boundaries As Per Technical Report: East: Plot No. Awith further interest @ 10.6% Loan No: 92, West: Plot No.A-90, North: Road 9 Mtrs., Wide, South: Plot Of Other p.a till repayment. HL00399100000005002791 Owner. Admeasuring Area: - 96 Sq. Yards All That Piece And Parcel Of The A Freehold Residential House, Admeasuring Rahul Nagar, Jyoti Devi, Rs.17,26,234/- (Rupees Sunita Devi 330 Sq. Yard i.e. 275.91 Sq. Meter, Out Of Khasra No. 256mi & 257mi, Seventeen Lakh Twenty Six **Loan Amount:** Situated At Village Dadupur, Pargana Dankaur, Tehsil & Dist. **Thousand Two Hundred** 06-02-2025 Gautambudhnagar U.P. (Hereinafter Called The Said Property). Boundaries: Rs.15.70.000/-Thirty Four Only) together Loan No: As Per Draft: East: Road 16 Ft., West: Part of Plot, North: Property of with further interest @ 15.35% LAP0659200000005023192 Rajchand, South: Property Of Raje. p.a till repayment. All That Piece And Parcel Of The Residential Vacant Plot Admeasuring 231.08 Vinit Kumar, Mahendri, Rs.20,96,858/- (Rupees Sq. Yd. (213.21 Sq. Mtr.) Situated At Mohalla Davalpuram Ward No. 5. Out Of Rahul Motla. Manisha **Twenty Lakh Ninety Six** Khasra No 845 Kasba & Pargana Khatauli Tehsil Jaansath Distt. **Loan Amount: Thousand Eight Hundred** Muzaffarnagar (U.P.) (Hereinafter Called The Said Property). Boundaries As | 06-02-2025 Rs.18,80,000/-Fifty Eight Only) together Per Sale Deed Registered On 06.01.2003. East: 18 Wide Road, West: Plot of Loan No: with further interest @ 15.85% Anil Kumar Sharma, North: Seller's Plot, South: Plot Of Sumita Tyagi LAP030300000005000776 p.a till repayment. Admeasuring Area: 231.08 Sq.Yd. All That Piece And Parcel Of The One Residential House Bearing No.28/2. Naresh Kumar, Surekha Rs.9,00,694/- (Rupees Nine Constructed On Plot No. 75, Land Area Measuring 41.805 Sq.-Mts., Situated **Loan Amount:** At Mohalla Bheem Nagar Hastinapur, Pargana Hastinapur, Tehsil Mawana & 06-02-2025 Lakh Six Hundred Ninety Rs.7,75,000/-Four Only) together with fur-Distt. Meerut. Boundaries: East: 15 Ft / House Of Jagmal, West: 15 Ft/Road ther interest @ 15.85% p.a till Loan No: Around 9 Mts Wide, North: 30 Ft/ Plot Of Pradeep, South: 30 Ft/ Part Of Plot repayment. Fateh Jeet Singh. All That Piece And Parcel Of The Built Up Property Bearing No.55, Area Rs.7,58,376/- (Rupees Seven Maninder Kaur Measuring 100 Sq.Yds., (Size 15'x60), Mustatil No.9, Out Of Khasra No.1/2, Lakh Fifty Eight Thousand Situated In The Area Of Village Khayala, Delhi State Delhi Colony Known As 06-02-2025 Loan Amount: **Three Hundred Seventy Six** Rs.5,47,886/-North Block, Vishnu Garden, New Delhi With The Free Hold Right Of The Land Only) together with further Loan No: Under The Said Property. And Which Is Bounded as unders: East: Plot interest @ 20.38% p.a till HL0031HDLH00003329 No.56, West: Plot No.54, South: Road 10 Ft., North: Road 15 Ft. repayment. Loan No: All That Piece And Parcel Of The Built-Up Property No.S-18, Land Measuring HL0031GDWL00001721 Ujjawal Luthra, Rs.14,06,636/- (Rupees Sudershan Luthra 200 Sq.Yds. (30'x60') Situated At Ajay Enclave, Najafgarh Road, In The Area Fourteen Lakh Six Thousand Loan Amount: Six Hundred ThirtySix Only) Rs.42,11,858/- which Of Village Tihar, Delhi, and Bounded as Under:- East: Road, North: Plot together with further interest ncludes **Rs.15,30,183/-** vide @ 17.39% p.a till repayment. 10-02-2025 No.S-17, West: S/Lane 15', South: Plot No.S-19 Loan Account bearing Loan No: HL0031GDWL00001721 HL0031GDWL00001533 Rs.24,02,715/- (Rupees Twenty and Rs.26,81,675/- vide a Four Lakh Two Thousand Loan Account bearing No. Seven Hundred Fifteen Only) HL0031GDWL00001533 together with further interest You the Borrower/s and Co-Borrower/s/Guarantors are therefore called upon to make payment of the above-mentioned demanded amount with further intrest as mentioned hereinabove in full with 60 Days of this notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the act to enforce the above mentioned security/ies. Please note that as per 13(13) of the said act, you are in the meanwhile. Restarined from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent Sd/- Authorised Officer

GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED

CAPITAL TRUST LIMITED (CIN-L65923DL1985PLC195299)

Registered Office: 205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030 Phone: 9716844571 Email: info@capitaltrust.in Web: www.capitaltrust.in



Grihum Housing Finance Limited, (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

SI. No.	Particulars	Qtr Ended 31.12.2024 Unaudited	Qtr Ended 30.09.2024 Unaudited	Corresponding Qtr ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2024 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2023 Unaudited	Financial Year ended 31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	2,519.82	2,511,14	1,980.97	7,505.78	5,711.16	7,958.32
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	21.41	30,84	73.49	150.75	206.82	288.12
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	21.41	30.84	73.49	150.75	206.82	288.12
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax and Minority Interest (after Exceptional and / or Extraordinary items)	5.88	23.26	55.27	102.50	154.69	214.62
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	5.88	23.26	55.27	102.50	154.69	216.15
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per Equity Share)	1,686.58	1,686.58	1,621.75	1,686.58	1,621.75	1,621.75
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5			Y		6,048.24
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)	0.03	0.14	0.34	0.61	0.95	1.32
	I. Basic:						
	II. Diluted:	0.03	0.14	0.34	0.61	0.95	1.32

New Delhi

14th February 2025

Dated: 15-02-2025

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14th February, 2025. The Statutory Auditors have reviewed the above financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2024.
- The Board, in its meeting held on November 14, 2024, approved the fundraising via a rights issue of up to 7 4995.00 Lakhs. Accordingly, the Company has applied for approval from the respective exchanges. Approval from NSE was obtained on February 06, 2025, while approval from
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year to date Financial Results. are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the website of the Company at www.capitaltrust.in

On behalf of the Board of Directors of Capital Trust Limited

Yogen Khosla

Chairman and Managing Director

FORM NO. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies

DEMAND NOTICE

(Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another

B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act. 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of **Hi-Line Stone India Private Limited** having its registered office at

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Wednesday, the 5th day of February, 2025 to enable the Company to change its registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Rajasthan."

affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA -21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Hi-Line Stone India Private Limited

Regd. Office: House No. 10, 3rd Floor, Block C. Pocket 9. Sector 8. Rohini, Delhi-110085 For and on behalf of the Applicant

Date: 15.02.2025 Place: Delhi

Before the Central Government Regional Director, Northern Region House No. 10. 3rd Floor, Block C. Pocket 9, Sector 8, Rohini, Delhi-110085 Petitioner Any person whose interest is likely to be **Sunil Garg Director** DIN: 00818118

R R Financial Consultants Limited

CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd Off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-44441111 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2024

			Consc	olidated		
Particulars		Quarter ende	ad	Nine Mor	nths ended	Year ended
	31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	10 10 17 1 to 100 to 10		31.12.2023 Unaudited	- CANADA-6-2.10
Total income from operations (net)	513.11	579.61	496.36	1,757.67	1,593.39	1987.18
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	11.75	48.64	14.27	96.77	135.12	65.82
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.75	48.64	(10.79)	96.77	110.06	65.82
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.21	37.54	(11.08)	75.13	102.27	43,19
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.14	41.14	(9.52)	68.93	93.53	37.05
Equity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year		8	F6		9	3451.87
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	0.02 0.02	0.37 0.37		0.62 0.62	0.84 0.84	

Key Standalone Un-audited Financial information for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2024

		Standalone							
Particulars	30	Quarter ende	Nine Mor	Year ended					
	HOLD (1972) 17425 (1974) 197	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 Unaudited		31.03.2024 (Audited)			
Total income from operations (net)	23.67	17.91	30.59	66.20	80.25	105.03			
Profit before tax	15.43	10.74	10.73	20.39	11.04	5.58			
Profit after tax	12.89	10.05	10.44	17.16	10.45	1.54			

The above is an extract of the detailed format of 3rd Quarter ended Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone. consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com. The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement principles of Companies (Indian

- Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS), as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amended Rules), 2016 prescribed under section 133 of Companies Act; 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting

held on 14.02.2025. Previous period figures have been reclassified/ regrouped wherever considered necessary to conform to the current figures.

> For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Date: 14th February, 2025

Place: New Delhi

Rajat Prasad Managing Director DIN: 00062612

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-;4372849 E-mail: apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com Regd. Off: Block-34, House no. 247, Trilokpri, Delhi-110091 Corp. Off: C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and nine month ended on 31st Dec., 2024 **Amount in Lacs**

Standalone

Consolidated Questor Ended Veer to date Questor Ended Questor Ended Veer to date Questor Ended

	Quarter Ended on 31.12.2024	Year to date on 31.12.2024	Quarter Ended on 31.12.2023	Quarter Ended on 31.12.2024	Year to date on 31.12.2024	Quarter Ended on 31.12.2023
	Unudited	Unudited	Unudited	Unudited	Unudited	Unudited
Total Income from Operations (net)	20.16	155.42	138.62	20.16	158.90	138.62
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	3.82	95.28	119.39	3.72	98.54	119.33
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	3.82	95.28	119.39	3.72	98.54	119.33
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2.86	71.30	89.34	2.82	72.02	89.33
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10.02)	47.60	75.54	(10.06)	46.24	75.76
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for contin	nuing and discontinu	ed operations) -		A 400	01	
Basic:	0.01	0.36	0.45	0.01	0.36	0.45
Diluted:	0.01	0.36	0.45	0.01	0.36	0.45
Notes: The above is an extract of the detailed format	of Quarterly Financi	al Results for the	three months and	d and nine month e	nded on 31st De	cember 2024 filed

Date: 14th February, 2025

Place: Delhi

Particulars

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and nine month ended on 31st December, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 31st December, 2020 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

(In Lakhs)

For Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited

Atul Singh Tyagi Managing Director DIN: 01335008

Form No. INC-26 {Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of

BHAGIRATHI FINLEASE PVT LTD

(CIN: U65910HR1996PTC033435) having its Registered Office at HOUSE NUMBER 411, JATAULA TEHSIL KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA-131402Applicant Company / Petitioner NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make ar application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 30th November, 2024 to enable the company to change its Registered Office from "State of Harvana" to the "National Capital Territory of Delhi". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or

send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-**HOUSE NUMBER 411, JATAULA TEHSIL**

KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA-131402

For & on behalf of **BHAGIRATHI FINLEASE PVT LTD PRAKHAR JALAN** (DIRECTOR DIN: 06807189

(Amt. In Lakhs)

Date: 14.02.2025 Place: Sonipat

SINDHU TRADE LINKS LTD.

129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035

Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter & Nine Months Ended on 31.12.2024 CIN: L63020DL1992PLC121695 | Website: www.sindhutrade.com | Email id: corporatecompliance@sindhutrade.com | Phone: 0124-6913000

Extracts of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended on 31.12.2024

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31.12.2024 (Unaudited)	30.09,2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31,12,2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income from operations	12225.30	11742.87	13735.09	36829.27	42254.74	59,965.99	51959.25	63562.19	47396.61	171618.03	139419.34	183623.84
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	1649.66	1744.71	1086.62	5567.23	4904.18	6336,71	(83.02)	12844.82	9596.21	22936.93	19632.26	7660.28
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	1649.66	1744.71	1086.62	5567.23	4904.18	6336.71	(83.02)	12844.82	9596.21	22936.93	19632.26	7658.47
Net profit/ (Loss) for the period after tax (before comprehensive Income)	1460.73	1454.53	823.18	4580.30	3633.56	5436.90	(747.07)	11654.27	9313.77	18056.87	17273.93	7076.53
Total Comprehensive Income for the Period (comprising Profit / Loss for the Period (after Tax)) and Other Comprehensive Income (after Tax)	1460.74	1454.51	1036.51	4580.34	3846.96	6352,61	3376.01	13323.28	9567.17	24030.57	18872.68	10128.09
Equity Share Capital	15419.29	15,419.29	15,419.29	15419.29	15,419.29	15,419.29	15419.29	15,419.29	15,419.29	15419.29	15419.29	15,419.29
Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year)	76636.85	75396.89	69373.65	76636.85	69373.65	72056.51	143474.61	141698.99	131916.33	143474.61	131916.33	1,34,163.36
Earning Per Shares (for continuing and discontinued operation) of 1/-each)												
Basic:	0.09	0.09	0.05	0.30	0.24	0.35	-0.03	0.42	0.42	0.52	0.77	0.37
Diluted:	0.09	0.09	0.05	0.30	0.24	0.35	-0.03	0.42	0.42	0.52	0.77	0.37

Place: Gurugram

Dated: 14.02.2025

- 1. The above is an extract of the detailed format of guarterly financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations). Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and company's website www.sindhutrade.com. The above results after being reviewed by the Audit Committee were taken on record by the Board at its Meeting held on 14thFebruary, 2025.
- 2. The above Unaudited financial results of the Company for the Quarter &Nine Monthsended on 31st December, 2024 have been reviewed by Audit Committee of the Board and approved by the Board of Director at its meeting held on 14th February, 2025.
- The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary.
- 4. Limited Review Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.

For & on behalf of Board of Directors Sindhu Trade Links Limited (Chairman &Director)

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN L65921DL1991PLC043087 Regd. Office: Upper Ground Floor, South Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Delhi-110003

Email ID: info@dfslonline.in , Website: www.dfslonline.in , Tel-011-20818570 Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2024 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

		Quarter Ended		Nine Mont	Year Ended		
Particulars	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-03-2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations Other Income	21.32	34.65	8.69	169.72	63.85	81.99	
Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(23.75)	7.89	(30.80)	12.61	(63.89)	(95.46)	
Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(23.75)	7.89	(30.80)	12.61	(63.89)	(95.46)	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(23.97)	(6.86)	(27.62)	(37.15)	(64.76)	(93.89)	
Joint Venture accounted for using the equity method			*	- 83	8	5%	
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(23.95)	(6.90)	(27.67)	37.28	(65.00)	(94,14)	
Equity Share Capital	2212.51	2212.51	2212.51	2212.51	2212.51	2212.51	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	8		Ş	356	26	(7089.88)	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)- 1. Basic 2. Diluted	(0.11) (0.11)	(0.03) (0.03)	(0.12) (0.12)	(0.17) (0.17)	(0.29) (0.29)	(0.42) (0.42)	

The information w.r.t, the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2024 are as.

Particulars	30.12.2024 (Quarterly)	30.12.2024 (Nine months ended)				
Turnover	21.17	168.64				
Profit before tax	(23.51)	12.97				
Profit after tax	(23,77)	(36.76)				

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Websites of the Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.comand on the website of the Company at www.dfslonline.in

Chairperson & Whole Time Director DIN: 09505480





Date: 14.02.2025 Place: New Delhi

New Delhi

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Financial Results filed with the Stock

Nidhi Deveshwar

Sd/-Rudra Sen Sindhu

DIN: 00006999

For DCM Financial Services Limited